

501
Bliss
Harsh
- 6/3/2012

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र०शासन ।

सेवा में,

समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी/उप निदेशक,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग-१ लखनऊ दिनांक ८ मार्च, 2012
विषय- आईडब्ल्यूएमपी के अन्तर्गत वाटरशेड कमेटी के स्तर पर विभिन्न मदों के कार्यों के भुगतान पर वित्तीय नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-Z -11011 / 11/ 2010-पीपीसी दिनांक 11.10.2011 द्वारा कामन गाइड लाइन्स 2008 के प्रस्तर-9, 29, 30, 31, 34, 44, 45 66, 67, 70, 71, 73 एवं 74 में संशोधन किया गया है जिसकी प्रति पूर्व में आपको उपलब्ध करायी गयी है ।

उक्त संशोधित प्रस्तर 44 एवं 45 के प्राविधानानुसार ही वाटर शेड कमेटी का गठन, उसके कार्यालय की व्यवस्था तथा निधियों प्राप्त करने हेतु एक प्रथक बैंक खाता खोलने की कार्यवाही किया जाना है । वाटरशेड कमेटी के माध्यम से वाटरशेड डेवलपमेन्ट वर्क्स सचिव के मानदेय तथा अन्य मदों के भुगतान एवं उससे संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव में निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी ।

1- वाटरशेड कमेटी के कार्यालय का किराया अधिकतम रू० 500/-प्रति माह की दर से डब्ल्यू०सी० के अध्यक्ष की संस्तुति पर पी०आई०ए० स्तर से स्वीकृत किया जायेगा जिसके मासिक किराए का भुगतान डब्ल्यू०सी० के अध्यक्ष से बिल सत्यापन के उपरान्त कमेटी द्वारा किया जायेगा ।

2- डब्ल्यू०सी० कार्यालय हेतु कुर्सी, टेविल, दरी एवं अभिलेखों के रख-रखाव हेतु छोटी अलमारी/बाक्स की व्यवस्था ग्राम पंचायत के सहयोग से करायी जायेगी ।

3- आवश्यक एवं उपयोगी अभिलेखों का रख-रखाव का दायित्व डब्ल्यू०सी० स्तर पर सचिव एवं परियोजना प्रभारी / डब्ल्यू०डी०टी० के नामिती सदस्य का होगा ।

4- वाटरशेड डेवलपमेन्ट वर्क्स मद में निष्पादित कार्यों के भुगतान की कार्यवाही मापन, सत्यापन के उपरान्त ही सुनिश्चित करायी जाय । अपरिहार्यता की स्थिति में वाटरशेड डेवलपमेन्ट कार्यों के निष्पादन में लगे श्रमिकों के मस्टर रोल के भुगतान हेतु किसी भी दशा में एक समय में रू० 40000/- (रू० चालीस हजार) से अधिक का आहरण डब्ल्यू०सी० के खातों से नहीं किया जायेगा ।

5- मस्टर रोल में लगे श्रमिकों का भुगतान समिति के अध्यक्ष के समक्ष कराते हुये इसकी पुष्टि हेतु मस्टर रोल पर प्रमाणित किया जायेगा ।

